



NCCF/JP/Buss./2021-22/ 450

Date: 12.01.2022

EXPRESSION OF INTEREST

NCCF, Jaipur branch requires the samples from registered/empanelled suppliers and bonafide manufacturers of NCCF, for the supply of Roasted Namkeen Dalia Premix, Meetha Nutri Daliya Premix, Moong Daal Rice Khichdi Premix, Meetha Murmura, Namkeen Murmura, Balahar Premix, Upma Premix under Integrated Child Development Scheme (ICDS).

Please submit your proposal with two set of samples of 0.2 kg (200 grams) of each item, on or before, 5:30 pm on 14.01.2022 for the items and specifications mentioned below.

1. गर्भवती/घात्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं हेतु रेसीपी (टेक होम राशन) :-

क्र. सं.	रेसीपी का नाम	प्रतिदिन की मात्रा (ग्राम में)	RDA मानक के अनुसार दिये जाने वाले माइक्रो न्यूट्रीशन	कम्पोजिशन
1	फोर्टिफाइड न्यूट्री मीठा दलिया	140	कैल्शियम- 600mg आयरन- 20mg ज़िंक - 7.25mg विटामिन ए- 475µg विटामिन-बी-1 (थायमिन)- 1.05mg विटामिन-बी-2-(राइबोफ्लेविन)- 1.5mg विटामिन-बी-3 (नियासिन) - 11.5mg विटामिन-बी-9 (फोलिक एसिड)- 285µg विटामिन सी- 57.5mg	रोस्टेड गेहूँ दलिया 55% डिफेटेड सोया फ्लोर/ ग्रीट 10% शक्कर 17% होल मिल्क पाउडर 8% एडिबल ऑयल 10%
2	फोर्टिफाइड मूंग दाल चावल खिचडी	140	कैल्शियम-600mg आयरन-20mg ज़िंक - 7.25mg विटामिन ए-475 µg विटामिन-बी-1 (थायमिन)- 1.05mg विटामिन-बी-2- (राइबोफ्लेविन)- 1.5mg विटामिन-बी-3 (नियासिन) - 11.5mg विटामिन-बी-9 (फोलिक एसिड)- 285µg विटामिन सी- 57.5mg	चावल 50% डिफेटेड सोया ग्रीट 12% मूंगदाल 20% एडिबल ऑयल 16% मसाले 2%
3	फोर्टिफाइड सादा गेहूँ दलिया	140	कैल्शियम- 600mg	रोस्टेड गेहूँ दलिया 73%

R. Sharma
NCCF of India Ltd.
Jaipur Branch

		आयरन- 20mg जिंक - 7.25mg विटामिन ए- 475µg विटामिन-बी-1 (थायमिन)- 1.05mg विटामिन-बी-2-(राइबोफ्लेविन)- 1.5mg विटामिन-बी-3 (नियासिन)- 11.5mg विटामिन-बी-9 (फोलिक एसिड)-285µg विटामिन सी- 57.5mg	डिफेटेड सोया फ्लोर/ ग्रिट 12% एडिबल ऑयल 15%
	योग		

(2)

उक्त रेसीपी में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिदिन सर्विग में न्यूनतम प्रोटीन 18 ग्राम, 600 किलो कैलोरी एवं RDA मानक के अनुसार माइक्रो न्यूट्रीशन फोर्टिफिकेशन दिया जाना प्रस्तावित है।

2. 06 माह से 3 वर्ष के बच्चों हेतु रेसीपी (टेक होम राशन) :-

क्र. सं.	रेसीपी का नाम	प्रतिदिन की मात्रा (ग्राम में)	RDA मानक के अनुसार दिये जाने वाले माइक्रो न्यूट्रीशन	कम्पोजिशन
1	फोर्टिफाइड न्यूट्री मीठा दलिया	60	कैल्शियम- 125mg आयरन- 2 mg जिंक - 0.85mg विटामिन ए- 97.5µg विटामिन-बी-1(थायमिन)-0.175mg विटामिन-बी-2-(राइबोफ्लेविन) 0.275mg विटामिन-बी-3(नियासिन) - 1.75mg विटामिन-बी-9 (फोलिक एसिड)-30µg विटामिन सी- 7.5mg	रोस्टेड गेहूँ दलिया 57% डिफेटेड सोया फ्लोर/ ग्रिट 07% शक्कर 15 % होल मिल्क पाउडर 8% एडिबल ऑयल 13%
2	फोर्टिफाइड मूंग दाल चावल खिचडी	60	कैल्शियम- 125mg आयरन- 2 mg जिंक - 0.85mg विटामिन ए- 97.5µg विटामिन-बी-1(थायमिन)-0.175mg विटामिन-बी-2-(राइबोफ्लेविन) 0.275mg विटामिन-बी-3(नियासिन) - 1.75mg विटामिन-बी-9 (फोलिक एसिड)-30µg विटामिन सी- 7.5mg	चावल 51% डिफेटेड सोया ग्रिट 16% मूंगदाल 17% एडिबल ऑयल 14% मसाले 2%
3	फोर्टिफाइड सादा गेहूँ दलिया	60	कैल्शियम- 125mg आयरन- 2 mg जिंक - 0.85mg विटामिन ए- 97.5µg विटामिन-बी-1(थायमिन)-0.175mg विटामिन-बी-2-(राइबोफ्लेविन) 0.275mg विटामिन-बी-3(नियासिन) - 1.75mg	रोस्टेड गेहूँ दलिया 80.50 % डिफेटेड सोया फ्लोर/ ग्रिट 8.50% एडिबल ऑयल 11%

R. Sharma
 NCC of India Ltd.
 Jaipur Branch

			विटामिन-बी-9 (फोलिक एसिड)-30µg विटामिन सी- 7.5mg	
4	फोर्टिफाइड बालाहार प्रीमिक्स	55	कैल्शियम- 125mg आयरन- 2 mg ज़िंक - 0.85mg विटामिन ए- 97.5µg विटामिन-बी-1(थायमिन)-0.175mg विटामिन-बी-2-(राइबोफ्लेविन) 0.275mg विटामिन-बी-3(नियासिन) - 1.75mg विटामिन-बी-9 (फोलिक एसिड)-30µg विटामिन सी- 7.5mg	रोस्टेड गेहूँ दलिया / पलोर 50% डिफेटेड सोया फलोर / ग्रिट 11% शक्कर 17% होल मिल्क पाउडर 7% एडिबल ऑयल 15%
	योग			

उक्त रेसीपी में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिदिन सर्विंग में न्यूनतम प्रोटीन 12 ग्राम, 500 किलो कैलोरी एवं RDA मानक के अनुसार माइक्रो न्यूट्रीशन फोर्टिफिकेशन दिया जाना प्रस्तावित है।

3. 06 माह से 3 वर्ष के अतिकुपोषित बच्चों हेतु रेसीपी (टेक होम राशन) :-

क्र. सं.	रेसीपी का नाम	प्रतिदिन की मात्रा (ग्राम में)	RDA मानक के अनुसार दिये जाने वाले माइक्रो न्यूट्रीशन	कम्पोजिशन
1	फोर्टिफाइड न्यूट्री मीठा दलिया	100	कैल्शियम- 208.33mg आयरन- 3.33mg ज़िंक - 1.25mg विटामिन ए- 162.50µg विटामिन-बी-1 (थायमिन)- 0.291mg विटामिन-बी-2-(राइबोफ्लेविन)-0.458mg विटामिन-बी-3 (नियासिन) - 2.91mg विटामिन-बी-9(फोलिक एसिड)-50µg विटामिन सी- 12.50mg	रोस्टेड गेहूँ दलिया 57 % डिफेटेड सोया फलोर/ग्रिट 07% शक्कर 15% होल मिल्क पाउडर 8% एडिबल ऑयल 13%
2	फोर्टिफाइड मूंग दाल चावल खिचडी	100	कैल्शियम- 208.33mg आयरन- 3.33mg ज़िंक - 1.25mg विटामिन ए- 162.50µg विटामिन-बी-1 (थायमिन)- 0.291mg विटामिन-बी-2-(राइबोफ्लेविन)-0.458mg विटामिन-बी-3 (नियासिन) - 2.91mg विटामिन-बी-9(फोलिक एसिड)-50µg विटामिन सी- 12.50mg	चावल 51% डिफेटेड सोया ग्रिट 16% मूंगदाल 17% एडिबल ऑयल 14% मसाले 2%
3	फोर्टिफाइड सादा गेहूँ दलिया	100	कैल्शियम- 208.33mg आयरन- 3.33mg ज़िंक - 1.25mg विटामिन ए- 162.50µg	रोस्टेड गेहूँ दलिया 80.50 % डिफेटेड सोया फलोर/ग्रिट 8.50% एडिबल ऑयल 11%

			विटामिन-बी-1 (थायमिन)- 0.291mg विटामिन-बी-2-(राइबोफ्लेविन)-0.458mg विटामिन-बी-3 (नियासिन) - 2.91mg विटामिन-बी-9(फोलिक एसिड)-50µg विटामिन सी- 12.50mg	
4	फोर्टिफाइड बालाहार प्रीमिक्स	90	कैल्शियम- 208.33mg आयरन- 3.33mg जिंक - 1.25mg विटामिन ए- 162.50µg विटामिन-बी-1 (थायमिन)- 0.291mg विटामिन-बी-2-(राइबोफ्लेविन)-0.458mg विटामिन-बी-3 (नियासिन) - 2.91mg विटामिन-बी-9(फोलिक एसिड)-50µg विटामिन सी- 12.50mg	रोस्टेड गेहूँ दलिया/ फलोर 50% डिफेटेड सोया फलोर/ गिट 11% शक्कर 17% होल मिल्क पाउडर 7% एडिबल ऑयल 15%
	योग			

उक्त रेसीपी में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिदिन सर्विग में न्यूनतम प्रोटीन 20 ग्राम, 800 किलो कैलोरी एवं RDA मानक के अनुसार माइक्रो न्यूट्रीशन फोर्टिफिकेशन दिया जाना प्रस्तावित है।

4. 03 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों हेतु रेसीपी :-

एक माह (25 दिवस) के लिए निर्धारित प्रोटीन 300 ग्राम एवं 12500 किलो कैलोरी

(अ) अल्पाहार (सुबह का नाश्ता)

क्र. सं.	वार	अल्पाहार	मात्रा (ग्राम में)	RDA मानक के अनुसार दिये जाने वाले माइक्रो न्यूट्रीशन	कम्पोजिशन
1	सोमवार, बुधवार, शुक्रवार	मीठा मुरमुरा	60	NIL	रोस्टेड गेहूँ आटा 63.5% डिफेटेड सोया फलोर 8.50% शक्कर 14% मक्का फलोर 5% एडिबल ऑयल 9%
2	मंगलवार, गुरुवार, शनिवार	नमकीन मुरमुरा	60	NIL	रोस्टेड गेहूँ आटा 73% डिफेटेड सोया फलोर 9% मक्का फलोर 5% एडिबल ऑयल 10% मसाले 3%
	सप्ताह में प्राप्त कुल मात्रा				

R. Sharma


(ब) गरम खाना

क्र. सं.	वार	अल्पाहार	मात्रा (ग्राम में)	RDA मानक के अनुसार दिये जाने वाले माइक्रो न्यूट्रीशन	कम्पोजिशन
1	सोमवार, गुरुवार	फोर्टिफाइड मूंग दाल चावल खिचड़ी	60	कैल्शियम- 275mg आयरन- 5.5mg ज़िंक - 2.25 mg विटामिन ए- 255µg विटामिन-बी-1 (थायमिन)- 0.45mg विटामिन-बी-2-(राइबोफ्लेविन)- 0.65mg विटामिन-बी-3 (नियासिन) - 4.5mg विटामिन-बी-9(फोलिक एसिड)- 67.5µg विटामिन सी- 16.16 mg	चावल 51% डिफेटेड सोया ग्रिट 16% मूंगदाल 17% एडिबल ऑयल 14% मसाले 2%
2	मंगलवार, शुक्रवार	फोर्टिफाइड मीठा दलिया	60	कैल्शियम- 275mg आयरन- 5.5mg ज़िंक - 2.25mg विटामिन ए- 255µg विटामिन-बी-1 (थायमिन)- 0.45mg विटामिन-बी-2-(राइबोफ्लेविन)-0.65mg विटामिन-बी-3 (नियासिन) - 4.5mg विटामिन-बी-9 (फोलिक एसिड)-67.5µg विटामिन सी-16.16mg	रोस्टेड गेहूँ दलिया 57% डिफेटेड सोया फ्लोर/ ग्रिट 07% शक्कर 15% होल मिल्क पाउडर 8% एडिबल ऑयल 13%
3	बुधवार, शनिवार	पौष्टिक उपमा प्रीमिक्स (मीठा-नमकीन)	60	कैल्शियम- 275mg आयरन- 5.5mg ज़िंक - 2.25mg विटामिन ए- 255µg विटामिन-बी-1 (थायमिन)- 0.45mg विटामिन-बी-2-(राइबोफ्लेविन)- 0.65mg विटामिन-बी-3 (नियासिन) - 4.5mg विटामिन-बी-9 (फोलिक एसिड)-67.5µg विटामिन सी- 16.16mg	रोस्टेड गेहूँ सूजी 51% डिफेटेड सोया फ्लोर/ ग्रिट 08% शक्कर 07% एडिबल ऑयल 14% मसाले 3% चना दाल 10% मूंगफली 5% डिहाईड्रेड वेजीटेबल 2%
सप्ताह में प्राप्त कुल मात्रा					

उक्त रेसीपी क्रम संख्या 4 (अ) और (ब) को मिलाकर (अल्पाहार एवं गरम खाना) में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिदिन सर्विंग में न्यूनतम प्रोटीन 12 ग्राम, 500 किलो कैलोरी एवं RDA मानक के अनुसार माइक्रो न्यूट्रीशन फोर्टिफिकेशन दिया जाना प्रस्तावित है।

R. Jhunjharia
2
Ministry of India Ltd.
Jaipur Branch

Please submit these samples along with the following documents.

1. FSSAI Central License for Roasted Saada Dalia Premix, Meetha Nutri Daliya Premix, Moong Daal Rice Khichdi Premix, Meetha Murmura, Namkeen Murmura, Balahar Premix, Upma Premix.
2. BIS License under IS 11536:2007

Please note that, samples for all the items are required.

R. Bhuria
(Rakesh Bhuria) 12/01/2022
Branch Manager

